

● सुरक्षा योजना (Protection Plans)

सुरक्षा योजनाएँ आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती हैं। यह केवल जीवन बीमा सुरक्षा देती हैं, पर इनमें पॉलिसी के अंत में पैसे नहीं मिलते।

✓ आसान उदाहरण

अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप ₹1 करोड़ जीवन कवर का प्लान लेते हैं:

- मासिक प्रीमियम केवल ₹800 – ₹1,000 से शुरू
- यदि कुछ हो जाता है तो परिवार को ₹1 करोड़ मिलते हैं
- परिवार लोन, बच्चों की पढ़ाई और खर्च संभाल सकता है

✓ कैसे काम करता है – स्टेप बाय स्टेप

चरण	क्या होता है
1. जीवन कवर चुनें	आय और जिम्मेदारियों के अनुसार कवर चुनें
2. पॉलिसी अवधि	25–40 वर्ष तक सुरक्षा
3. कम प्रीमियम	प्रीमियम आप मासिक/वार्षिक भर सकते हैं
4. परिवार सुरक्षा	मृत्यु होने पर राशि परिवार को मिलती है
5. अतिरिक्त लाभ	दुर्घटना/गंभीर बीमारी के राइडर जोड़ सकते हैं

✓ मुख्य फायदे

- ✓ कम प्रीमियम में अधिक सुरक्षा
- ✓ परिवार की आर्थिक सुरक्षा
- ✓ एकमुश्त + मासिक आय विकल्प
- ✓ अतिरिक्त राइडर उपलब्ध
- ✓ टैक्स लाभ

✓ अपनी ज़रूरत के अनुसार सही प्लान चुनें

क्रमांक	कौन-सा वाक्य आपकी ज़रूरत से मेल खाता है
1	सबसे कम प्रीमियम में प्योर टर्म इंश्योरेंस चाहिए
2	टर्म प्लान + प्रीमियम की राशि वापस चाहिए
3	लचीले राइडर्स और कस्टमाइज़ेशन चाहिए
4	ज्यादा कवरेज + एडवांस राइडर्स चाहिए
5	परिवार की सुरक्षा + बचत योजना चाहिए

👉 अपना उत्तर 1, 2, 3, 4 या 5 में से बताएं और हम आपको सही प्लान सजेस्ट करेंगे।